

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) (Backward Regions Grant Fund –Government Plans)

उद्देश्य

- पिछड़े राज्यों में पहले से जारी विकास कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए आर्थिक संसाधन मुहैया कराकर क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया, जिससे निम्न लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।
- मौजूदा विकास कार्यक्रमों और स्थानीय लोगों की जरूरतों को प्रतिबिम्बित करने के लिए उपयुक्त क्षमता निर्माण के साथ पंचायतों और नगर निकायों को सशक्त करना, सहभागी योजनाओं को आसान बनाना,
- निर्णय लेना, क्रियान्वयन और निगरानी।

अपेक्षित लाभार्थी

- पिछड़े गाँव
- पंचायती राज संस्थान

मुख्य विशेषताएं

- बीआरजीएफ विकास अनुदान
 - o किसी भी पंचायत और नगर निकाय में लोगों की सहभागिता से होने वाले कार्यों की पहचान और विकास के अंतर को पाटने के लिए धन का जितना अनटाइड (खोला हुआ) और सरल इस्तेमाल इस योजना के द्वारा हो सकता है, उतना और किसी योजना के द्वारा नहीं।
 - इसके तहत योजना को ऊपर से नीचे की बजाए जमीनी स्तर से ऊपर की ओर बढ़ने की पद्धति पर तैयार किया गया है।
 - इसके दिशा-निर्देश ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों, शहरी क्षेत्रों में नगर-पालिका और जिला स्तर पर जिला योजना समितियों को योजना बनाने और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रीय भूमिका प्रदान करते हैं।
 - बीआरजीएफ क्षमता निर्माण अनुदान: क्षमता निर्माण और कर्मचारियों के प्रावधान (स्टाफ प्रोविजनिंग) के लिए कुल आवंटन का 11 प्रतिशत धन इस्तेमाल किया जा सकता है, इस हेतु इतना व्यय किसी और योजना में नहीं होता है।